



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 22 अक्तूबर, 2020 / 30 आश्विन, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 16 अक्तूबर, 2020

संख्या आर.डी.(जी)1/1-2020.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला शिमला के वर्तमान विकास खण्ड, मशोबरा व बसंतपुर को विभाजित/पुनर्गठित करके निम्न सारणी अनुसार नया विकास खण्ड, टुटू स्थित हीरानगर के सृजन की जनहित में सहर्ष आदेश देते हैं:—

जिला का नाम	वर्तमान विकास खण्ड का नाम जिससे विभाजित किया गया है	कोष्ठ 2 में दर्शाए गए विकास खण्ड में शामिल पंचायतों के नाम पुनर्गठन उपरान्त	नवगठित विकास खण्ड का नाम तथा मुख्यालय	नवगठित विकास खण्ड में सम्मिलित पंचायतों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6
शिमला	मशोबरा	1. बलोग 2. भडेच 3. भौंट 4. चमियाना 5. चैड़ी 6. दरभोग 7. ढल्ली 8. गुम्मा 9. जनेड़घाट 10. जुन्ना 11. कोटी 12. कुफरी 13. मल्याणा 14. मशोबरा 15. मूलकोटी 16. पगोग 17. पटगेहर 18. पिरन 19. पुजारली 20. रझाणा 21. सतलाई 22. बल्देयां 23. नालदेहरा 24. डूम्मी	टुटू स्थित हीरानगर	1. आनन्दपुर 2. बागी 3. बठमाना जाबरी 4. भलोह 5. बाईचड़ी 6. चैली 7. चनोग 8. धमून 9. दुधाल्टी 10. गलोट 11. गनोग नैहरा 12. घनाहट्टी 13. हलोग धामी 14. जलेल 15. कोट 16. मैली जेजड़ 17. मूल बरी देवनगर 18. नेरी 19. रामपुर क्यौन्थल 20. शकराह 21. शामलाघाट 22. टुटू मंजठाई 23. थड़ी 24. घेच कोहबाग	पंचायतें विकास खण्ड मशोबरा/बसंतपुर से सम्मिलित की गई हैं।
	बसंतपुर	1. बाग 2. बसंतपुर 3. चलाहल 4. चनाबग 5. चैबड़ी 6. देवला 7. धरोगड़ा 8. डोमेहर 9. घैणी 10. घरयाणा 11. हिमरी 12. जुणी 13. करयाली		1. पाहल 2. ओखरू 3. पिपली धार	

		14. खटनोल 15. कोटला 16. मंडोड़घाट 17. मझीवड़ 18. नीन 19. नैहरा 20. ओगली 21. रियोग 22. शकरोड़ी 23. थाची			
			कुल पंचायतें	27	

नव सृजन विकास खण्ड टुटू स्थित हीरानगर के लिए निम्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	खण्ड विकास अधिकारी	10300-34800+5000	1
2.	अधीक्षक ग्रेड-1	10300-34800+4800	1
3.	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी	10300-34800+4200	1
4.	वरिष्ठ सहायक (प्रगति)	10300-34800+4400	1
5.	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	10300-34800+4400	1
6.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई0टी0)	5910-20200+1950	2
7.	चालक	(on daily basis)	1
8.	सेवाद्वार	4900-10680+1300 (on contract/ regular basis)	1
9.	सिक्वोरिटी	(on outsource basis)	1
		कुल पद . .	10

क्रमांक 1 से 8 तक पर अंकित सृजित पदों का वेतन मुख्य शीर्ष 2515-00-102-01-सून(CD) of RD Non-Plan तथा क्रमांक 9 पर सृजित पद का वेतन 2515-00-102-01-सून (गैर योजना) मद 05-कार्यालय व्यय से वहन किया जाएगा।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त नव सृजित विकास खण्ड टुटू स्थित हीरानगर के लिए मनरेगा कार्यक्रम में एक पद कम्प्यूटर ओपरेटर की अनुबन्ध आधार पर भी स्वीकृति दी जाती है तथा इनका वेतन मनरेगा कार्यक्रम के प्रशासनिक मद में से ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एस0एम0आई0-9/99.

2007-आर0डी0डी0 दिनांक 14-9-2007 द्वारा जारी नीति व दिशा निर्देशों तथा अधिसूचना संख्या: आर0डी0डी0-।।।-बी0(15) 4/2013-Vol-V-5594-5769 दिनांक 9-10-2017 के अनुसार वहन किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
डॉ० संदीप भटनागर,
सचिव (ग्रामीण विकास)।

ग्रामीण विकास विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-02 17 अक्टूबर, 2020

संख्या: आर.डी.(जी)1/1-2020.—इस विभाग के संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-10-2020 के क्रम को जारी रखते हुए अधिसूचना के पृष्ठ-2 पर सृजित पदों के क्रमांक-2 पर दर्शाए गए 'अधीक्षक ग्रेड-I' के स्थान पर 'अधीक्षक ग्रेड-II' पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,
डॉ० संदीप भटनागर,
सचिव (ग्रामीण विकास)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अगस्त, 2020

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 14/2020.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गावं मैड़ (भाग-2) मौजा मैहलता, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-ब्रह्मपुखर-घागस-घुमारवीं-हमीरपुर-नादौन-ज्वालामुखी-कांगड़ा-मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 नया 103 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भूअर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (कनाल/मरले में)
हमीरपुर	हमीरपुर	मैड़ (भाग-2)	1193 / 503	0-6
			1196 / 504	0-1
			कित्ता . .02	0-7

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriages, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur (H.P.)

Sh. Rohit Bhalla s/o Sh. Sohan Lal, r/o Village Kot Khas, Post Office Toba, Gram Panchayat Kot Khas, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.).

Versus

1. General Public.
2. Pradhan, G.P. Kot Khas, Tehsil Sh. Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur

Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.

Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for registration of his marriage the applicant Sh. Rohit Bhalla s/o Sh. Sohan Lal, r/o Village Kot Khas, Post Office Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.). hereafter called as Bridegroom and Smt. Ayushi Ahuja hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both they have solemnized marriage with each other on 24-11-2016 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage anywhere in India till date. The Bride Ayushi Ahuja is the daughter of Sh. Ashwani Ahuja, r/o Village & P.O. Talwara, Tehsil Mukerian, District Hoshiyarpur, Punjab, and her usual place of residence is Kot Khas, Post Office Toba, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public and Gram Panchayat Kot Khas for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 07-11-2020 failing which *ex-parte* proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 07-10-2020.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar,
of Marriages Shri Naina Devi Ji at Swarghat,
District Bilaspur (H.P.).*

ब अदालत श्री कर्मचन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 3

श्रीमती पुष्पा देवी आयु 48 वर्ष पत्नी श्री पुरुषोत्तम लाल, निवासी गांव बाडी चौक, डाकघर भटवाडा,
परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

आवेदन हि0 प्र0 भू0 अभिलेख नियमावली 192 के पैरा 8-47 के अनुसार इंतकाल तस्दीक होने बारे।

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त श्रीमती पुष्पा देवी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरे पति श्री पुरुषोत्तम लाल, निवासी गांव बाडी चौक, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) लगभग 19 वर्षों से लापता है। अगर पुरुषोत्तम लाल जीवित हो तो वह इश्तहार पढ़ कर खुद न्यायालय में हाजिर हो इसकी वरास्त का इन्तकाल जायज वारसान के नाम पर बाबत मौजा वाडी चौक में ई0 नं0 520 दिनांक 16-06-2020 को दर्ज हो चुका है। अगर इस इन्तकाल को तस्दीक करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अपनी आपत्ति/एतराज इस न्यायालय में दिनांक 25-11-2020 से पहले असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में इन्तकाल तस्दीक करने बारे अग्रिम आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कर्मचन्द

नायब तहसीलदार भराड़ी,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कर्मचन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 1

दायर करने की तिथि : 31-08-2020

सुनिता देवी पत्नी श्री कुलदीप चन्द आयु 38 वर्ष, निवासी गांव पन्तेहड़ा, परगना अजमेरपुर,
उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इश्तहार मुश्री मुनादी नाम दुरुस्ती बारे।

उक्त प्रार्थी ने इस अदालत में दावा दायर किया है कि उसका नाम समस्त कागजात (स्कूल, ग्राम पंचायत, आधार कार्ड, बैंक, वोटर कार्ड) में सुनिता देवी दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में सलीता देवी दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थिया इसे दुरुस्त करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अभिकरण से भी छानबीन करवाई गई जिसकी रिपोर्ट से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः इस इश्तहार मुश्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के दावा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ता क्षरी दिनांक 25-11-2020 तक हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी ,
भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री कर्मचन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 2

दायर करने की तिथि : 21-07-2020

सरला देवी पत्नी श्री कमलजीत सिंह आयु 38 वर्ष, निवासी गांव देहरा (टाण्डा), डाकघर हटवाड़ परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—इश्तहार मुश्री मुनादी नाम दुरुस्ती बारे।

उक्त प्रार्थी ने इस अदालत में दावा दायर किया है कि उसका नाम समस्त कागजात (स्कूल, ग्राम पंचायत, आधार कार्ड, बैंक, वोटर कार्ड) में सरला देवी दर्ज है। लेकिन उसके पति श्री कमलजीत सिंह (P. No. 117312W Rank Ex POUCI) जो भारतीय नौसेना से वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके नौसेना रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सरला सिंह ठाकुर दर्ज किया गया है जो कि गलत है प्रार्थिया इसे सभी रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहती है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अभिकरण से भी छानबीन करवाई गई जिसकी रिपोर्ट से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः इस इश्तहार मुश्री मुनादी के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के दावा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ता क्षरी दिनांक 25-11-2020 तक हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

कमल कान्त शर्मा आयु 61 वर्ष पुत्र बली भद्र, निवासी ब्रौ, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा : जेर धारा 13(3) अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में कमल कान्त शर्मा आयु 61 वर्ष पुत्र बली भद्र, निवासी ब्रौ, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी माता चम्पा शर्मा की मृत्यु दिनांक 24-02-2011 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु तिथि अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका हूँ, और इस विषय बारे उसने अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत पोशना में उसके परिवार रजिस्टर में मृत्यु तिथि दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।

इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को चम्पा शर्मा पत्नी बली भद्र की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने में एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2020 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उपरोक्त चम्पा शर्मा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पोशना में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत पोशना को मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 09-10-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**In the Court of Dr. Amit Guleria, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Surender Kumar s/o Sh. Mani Ram, r/o Village & P.O. Gahidharar, Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.).

2. Anjumaya d/o Kunsang, r/o Ward No. 7, Near Home Guard Gate Sharabai, P. O. Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).
..Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Surender Kumar and Anjumaya have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-10-2020 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 06-11-2020. The objection received after 06-11-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-10-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(Dr. AMIT GULERIA, HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Raman Gharsangi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Jigme Tsering Bodh age 35 years s/o Sh. Duni Chand Bodh, r/o House No. 117, Ward No. 7, Gom pa Road Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu, H. P.-175131 and Anjali Khampa d/o Sh. Pan Singh Khampa, r/o Khampa Dhar Swaldham, P.O. Gwaldam Chamoli, Gwaldam State Gwaldam Tharali Chamoli Uttrakhand-246441.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Jigme Tsering Bodh age 35 years s/o Sh. Duni Chand Bodh, r/o House No. 117, Ward No. 7, Gompa Road Manali, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu, H. P.-175131 and Anjali Khampa d/o Sh. Pan Singh Khampa, r/o Khampa Dhar Swaldham, P.O. Gwaldam Chamoli, Gwaldam State Gwaldam Tharali Chamoli Uttrakhand-246441 has presented an application on 06-10-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 06-11-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 7th day of October, 2020.

Seal.

Sd/-

*Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate, Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice under section 37 of Land Revenue Act, 1954 Correction of name in Revenue Record.

Beli Ram

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Sh. Beli Ram s/o Sh. Jalpu, resident of Village Koltha, P.O. Lagauti, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) has moved and application for correction of name in revenue record in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating therein that he is owner of land in Karshaigad Phati of Tehsil Anni, District Kullu. In the application the applicant has prayed that the entry in revenue record with respect to name is not correct *i.e.* Beli Ram s/o Sh. Jalpa. The applicant has attached Aadhar Card, Copy of Parivar Register alongwith an affidavit wherein the name of the applicant has been shown as Veer Singh s/o Jalpu.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name in revenue record of said applicant Sh. Beli Ram instead of Veer Singh then he may file his objection before the undersigned before 15-11-2020 on any working day, failing which the *ex-parte* order with regards to correction of name will be passed.

Given under my seal and signature on this 12th day of October, 2020.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

CHANGE OF NAME

I, Pooja Sharma *alias* Rekha Rani Sharma w/o Sh. Rajiv Kumar Sharma, Village Darang, Ward No. 3, P.O. and Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P. (civil suit filed in the court of Senior Civil Judge, Dehra, Distt, Kangra, H.P. *vide* civil suit No. 367/2019, instituted on 5-10-2019 and decided on 19-9-2020) declare that my name in my minor son Lovish Sharma's School record and in Birth Certificate has wrongly been entered as Pooja Sharma whereas my correct name is Rekha Rani Sharma. I may very kindly be known as Pooja Sharma *alias* Rekha Rani Sharma. All concerned may note please.

*Pooja Sharma alias Rekha Rani Sharma w/o
Sh. Rajiv Kumar Sharma, Village Darang,
Ward No. 3, P.O. and Tehsil Jawalamukhi,
District Kangra, H.P.*